



कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन, पुलिस कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-30.11.2022

बर्तन की दुकान से माल चोरी करने वाला कर्मचारी चुराए गए माल व सहयोगी के साथ थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा गिरफ्तार ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त वाराणसी के चोरी/लूट की घटनाओं के अनावरण एवं वांछित/फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन के निर्देशन में थाना कैण्ट पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सहायता से 02 नफ़र शातिर अभियुक्त 1-गुरु नारायण पुत्र नंदलाल मौर्या निवासी कंदवा निकट एसएमएस हॉस्टल चितईपुर थाना मंडुवाडीह वाराणसी व 2-संतोष कुमार केशरी पुत्र तेरस नाथ केशरी निवासी धर्मशाला रोड मुगलसराय थाना कोतवाली मुगलसराय जिला चंदौली को एलटी कालेज के पास अर्दली बाजार से आज दिनांक-30/11/22 को समय 01.35 बजे गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तगणों के कब्जे से बर्तन की दुकान से चुराया गया माल बरामद किया गया । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैण्ट पुलिस द्वारा मु0अ0सं0-559/2022 धारा धारा 411/413/414 भादवि पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

घटना का विवरण- थाना कैण्ट उ0नि0 हिमांशु त्रिपाठी को मुखबिर खास द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि 02 आदमी आपस में चोरी के कुछ सामान को खरीदने-बेचने की बात कर रहे थे उक्त सूचना पर त्वरित कार्यवाही करते हुए पुलिस टीम के साथ एल टी कलेज खंडहर की ओर बढ़े ही थे की तभी 2 व्यक्ति खंडहर के अंदर जाते हुए दिखाई दिए फिर मुखबिर खास से पहचान सुनिश्चित करते हुए पुलिस टीम द्वारा एक बारगी घेर घार कर दबिश देकर दोनों व्यक्तियों को हिरासत पुलिस में लेकर पूछताछ की गयी ।

विवरण पूछताछ- पूछताछ करने पर अभियुक्त गुरुनारायण ने बताया कि मैं होल सेल बाजार नामक बर्तन की दुकान जो लहुराबीर चेतमणि ज्वेलर्स के सामने हैं वहीं काम करता हूं और मालिक की जानकारी के बिना उनकी दुकान से माल चुराकर यहीं खंडहर में छिपाकर रखा है । दूसरे अभियुक्त संतोष कुमार केशरी ने बताया कि मैं मुगलसराय में अपनी गिफ्ट और केक की दुकान चलाता हूं और गुरुनारायण के बुलाने पर यहां आकर बर्तन ले जाके अलग-अलग दुकानों पर बेंच देता हूं । सामान बेंचकर जो भी पैसा मिलता है वो हम दोनों आपस में बांट लेते हैं ।

गिरफ्तार अभियुक्तगण का विवरण-

- 1.गुरु नारायण पुत्र नंदलाल मौर्या निवासी कंदवा निकट एसएमएस हॉस्टल चितईपुर थाना मंडुवाडीह वाराणसी उम्र 42 वर्ष ।
- 2.संतोष कुमार केशरी पुत्र तेरस नाथ केशरी निवासी धर्मशाला रोड मुगलसराय थाना कोतवाली मुगलसराय जिला चंदौली, उम्र 35 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

- 1-05 अदद सनपलेक्स चूल्हा
- 2-35 अदद प्रेशर कुकर
- 3-31 अदद सेलो थर्मस
- 4-01 अदद यू कुक चॉपर बरामद ।

गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम का विवरण-

- 1.उ0नि0 हिमांशु त्रिपाठी थाना कैंट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 2.का0 सचिन मिश्रा थाना कैंट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 3.का0 प्रिन्स तिवारी थाना कैंट कमिश्नरेट वाराणसी ।
- 4.का0 राजेन्द्र सिंह थाना कैंट कमिश्नरेट वाराणसी ।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त
वरुणा जोन, कमिश्नरेट वाराणसी